

प्रेस नोट-सहारनीय कार्य 17.06.2022

थाना SOG व थाना मदनापुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी,

चोरी व छिनैती करने वाले 03 शातिर लुटेरे साहसिक पुलिस मुठभेड मे गिरफ्तार, चोरी की आधा दर्जन घटनाओं

का सफल अनावरण,

**चोरी के 58000/- रुपये, तीन अंगूठी (पीली धातु), चोरी की मोटरसाइकिल सहित अवैध असलहा व कारतूस
आदि बरामद ।**

विगत करीब 02 माह से थाना क्षेत्र तिलहर व मदनापुर व जलालाबाद में लगातार एक काले रंग की मोटरसाइकिल से अज्ञात बदमाशों द्वारा नगदी वे ज्वेलरी की चोरी की घटनाएं घटित होने की सूचना प्राप्त हो रही थी यह लोग मुख्य रूप से बैंक से रुपए निकालने वाले जनता के भोले भाले लोगों को अपना शिकार बनाते थे जब इस तरह की कई घटनाएं जनपद के विभिन्न थानों पर पंजीकृत हुईं ।

श्री एस आनन्द, पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर द्वारा इन घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए इस गैंग को ट्रेस कर उसे ब्रस्ट करने के लिए स्थानीय पुलिस के साथ एसओजी टीम को भी लगाया गया पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर स्वयं उक्त घटनाओं के अनावरण की दिशा में पुलिस टीम द्वारा किए जा रहे प्रयासों की मॉनिटरिंग कर रहे थे । श्री संजय कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण में एसओजी टीम ने थाना मदनापुर पुलिस को 16/17.06.2022 की रात्रि में उक्त सफलता प्राप्त हुई जिस समय पुलिस टीम पतारसी सुरागरसी में थाना क्षेत्र मदनापुर मौजूद थी तो मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि इस गैंग इस गैंग का मूवमेंट बरुआ की तरफ है कुछ देर बाद में यह लोग मोटरसाइकिल से बुधवाना की तरफ जाएंगे ।

इस सूचना पर पुलिस टीम द्वारा बेहगुल नदी पुल पर गाढ़ाबंदी नाकाबंदी की गई तो बरुआ की तरफ से तीन व्यक्ति मोटरसाइकिल से पुल की तरफ आए जिन्हें पुलिस टीम द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो उनके द्वारा अपने आप को पुलिस द्वारा घिरा पाकर पुलिस पार्टी पर फायर कर मौके से भागने का प्रयास किया गया । जिस पर पुलिस टीम द्वारा संयम व दृढ़ता का परिचय देते हुए सभी तीनों व्यक्तियों को मोटरसाइकिल सहित पकड़ लिया गया । अभियुक्त के कब्जे से मौके पर ही भारी मात्रा में चोरी की नगदी, ज्वेलरी व चोरी की मोटरसाइकिल, पासबुक व पासपोर्ट साइज फोटो सहित अवैध असलहा बरामद किए गए । इस सम्बन्ध मे थाना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है ।

घटनास्थल व समय:-

बेहगुल नदी पुल थाना मदनापुर समय दिनांक 16/17.06.22 की रात्रि 00.15 बजे

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण

1-प्रमोद कुमार पुत्र मेवाराम निवासी ग्राम भावलखेड़ा थाना जलालाबाद ।

2-हर्षवर्धन मिश्रा उर्फ विकास पुत्र श्री निवास मिश्रा निवासी उपरोक्त ।

3-छेदा लाल पुत्र रामसरस निवासी नयागांव मैसूरपुर थाना जलालाबाद ।

बरामदगी का विवरण:-

- 1-₹43000 नगद थाना तिलहर की घटना से संबंधित
- 2-₹15000 नगद थाना मदनापुर की घटना से सम्बन्धित
- 3- तीन अंगूठी पीली धातु
- 4- एक चोरी की मोटरसाइकिल नं0 यूपी 27 एस 6490
- 5- एक पासबुक व दो पासपोर्ट साइज फोटो एक बैग थाना तिलहर से संबंधित
- 6- दो तमंचा 315 बोर चार जिंदा कारतूस 315 बोर एक खोखा कारतूस

पूछताछ का विवरण

अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि पकड़े गए तीन तीनों लोग आसपास के गांव के हैं । 1 जनवरी 2022 को प्रमोद व हर्षवर्धन ने मिलकर जलालाबाद कस्बे से एक मोटरसाइकिल चोरी की थी तथा उसी मोटरसाइकिल से सभी घटनाओं को अंजाम दिया गया है । हम लोग बैंकों के आस पास जाकर खड़े हो जाते थे तथा प्रमोद बैंक के अंदर जाकर यह देखता था कि कौन व्यक्ति ज्यादा मात्रा में रुपए निकाल रहा है व यह भी देखता था कि वह व्यक्ति अधिक आयु का है जिसे आसानी से शिकार बनाया जा सके तथा जिससे रास्ते में कहीं मौका पाकर चुपके से उसके रुपए चोरी कर लेते थे । इनके द्वारा हाल फिलहाल में ही 10 जून को तिलहर से एक व्यक्ति से ₹48000 व 15 जून को ग्राम बरखेड़ा जयपाल से ₹15000 रुपये व करीब 02 माह पहले मदनापुर से एक सुनार से सोने की अंगूठियां चोरी करना स्वीकार किया है ।

आपराधिक इतिहास:-

अभियुक्त प्रमोद

1-मु0अ0सं0 252/17 धारा 302,307,120B,34 भादवि थाना कोतवाली जनपद मैनपुर ।

अनावरित व पंजीकृत अभियोगों का विवरण:-

- 1-मु0अ0सं0 433/22 धारा 379 भादवि थाना जलालाबाद शाह0 ।
- 2-मु0अ0सं0 440/22 धारा 379 भादवि थाना जलालाबाद शाह0 ।
- 3-मु0अ0सं0 294/22 धारा 379 भादवि थाना मदनापुर शाह0 ।
- 4-मु0अ0सं0 295/22 धारा 379 भादवि थाना मदनापुर शाह0 ।
- 5-मु0अ0सं0 296/22 धारा 307 भादवि थाना मदनापुर शाह0 ।
- 6-मु0अ0सं0 297/22 धारा 3/25/27 शस्त्र अधि0 थाना मदनापुर शाह0 ।

7-मु0अ0सं0 298/22 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना मदनापुर शाह0 ।

पुलिस टीम का विवरण:-

1-प्रभारी SOG श्री रोहित कुमार

3-उ0नि0 श्री शैलेन्द्र मिश्रा थाना मदनापुर

5-का0 अजय एस.ओ.जी शाह0

7-कां0 ज्ञानेन्द्र एस.ओ.जी शाह0

9-का0 प्रभात चौधरी एस.ओ.जी शाह0

11-कां0 कमल एस.ओ.जी शाह0

13-कां0 कुलदीप थाना मदनापुर शाह0

15- कां0 अजय सर्विलांस सेल

2-उ0नि श्री जयपाल सिंह थाना मदनापुर ।

4-हे0कां0 उदयवीर एस.ओ.जी शाह0

6-कां0 दिलीप एस.ओ.जी शाह0

8-कां0 तोसीम हैदर एस.ओ.जी शाह0

10-कां0 चालक कपिल

12-कां0 अमन थाना मदनापुर शाह0

14- कां0 राहुल मलिक थाना मदनापुर शाह0

16-कां0 संजीव सर्विलांस सेल